

अकृत्रिम-चैत्यालय-पूजन Akṛtrima-Chaityālaya-Pūjana

कविश्री नेमा

Kaviśrī Nēma

आठ करोड़ अरु छप्पन लाख, सहस्र सत्याणव चतुशत भाख |

जोड़ इक्यासी जिनवर-थान, तीनलोक आह्वान करान ||

ॐ ह्रीं श्री त्रैलोक्यसम्बन्ध्यष्टकोटि-षट्पंचाशल्लक्ष-सप्तनवतिसहस्र-चतुः शतैकाशीति-अकृत्रिमजिनचैत्यालयानि !

अत्र अवतर अवतर संवौष्ट ! (आह्वाननम्)

ॐ ह्रीं श्री त्रैलोक्यसम्बन्ध्यष्टकोटि-षट्पंचाशल्लक्ष-सप्तनवतिसहस्र-चतुः शतैकाशीति-अकृत्रिमजिनचैत्यालयानि !

अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः! (स्थापनम्)

ॐ ह्रीं श्री त्रैलोक्यसम्बन्ध्यष्टकोटि-षट्पंचाशल्लक्ष-सप्तनवतिसहस्र-चतुः शतैकाशीति-अकृत्रिमजिनचैत्यालयानि !

अत्र मम सन्निहितो भव भव वषट् ! (सन्निधिकरणम्)।

Aṭha karōra aru chappana lākha, sahasa satyāṇava catuśata bhākha |

Jōṛa ikyāsī jinavara-thāna, tīnalōka āhvāna karāna ||

Om hrīṁ śrī trailokyasambandhyāṣṭakōṭi-ṣaṭpañcāśallakṣa-saptanavatisahasra-catu:

Śataikāśīti akṛtrima jinacaityālayāni! Atra avatara avatara sanvauṣat! (āhvānanam)

Om hrīṁ śrī trailokyasambandhyāṣṭakōṭi-ṣaṭpañcāśallakṣa-saptanavatisahasra-catu:

Śataikāśīti akṛtrima jinacaityālayāni! Atra tiṣṭha tiṣṭha tha: tha: (Sthāpanam)

Om hrīṁ śrī trailokyasambandhyāṣṭakōṭi-ṣaṭpañcāśallakṣa-saptanavatisahasra-catu:

Śataikāśīti akṛtrima jinacaityālayāni! Atra mama sannihitō bhava bhava vaṣat! (sannidhikaranam)

(त्रिभंगी छन्द)

(Tribhaṅgī chanda)

क्षीरोदधि नीरं, उज्ज्वल छीरं, छान सुचीरं भरि झारी |

अतिमधुर लखावन, परम सुपावन, तृष्णा-बुझावन गुणभारी ||

वसु कोटि सु छप्पन, लाख सताणव, सहस्र चार शत इक्यासी |

जिन गेह अकृत्रिम, तिहुँ जग भीतर, पूजत पद ले अविनाशी ||

ॐ ह्रीं श्री त्रैलोक्यसम्बन्ध्यष्टकोटि-षट्पंचाशल्लक्ष-सप्तनवतिसहस्र-चतुः शतैकाशीति-अकृत्रिमजिनचैत्यालयेभ्यो जन्म-जरा-
मृत्यु-विनाशनाय जलं निर्वपामीति स्वाहा । १।

Kṣīrōdadhi nīram, ujjvala chīram, chāna sucīram bharijhārī |

Atimadhura lakhāvana, parama supāvana, tṛṣṇā-bujhāvana guṇabhārī ||

Vasu kōṭi su chappana, lākha satāṇava, sahasa cāra śata ikyāsī |

Jina gēha akṛtrima, tihum̄ jaga bhītara, pūjata pada lē avināśī ||

*Om hrīm śrī trailokyasambandhyāṣṭakōti-śaṭpañcāśallakṣa-saptanavatisahasra-catu:
Śataikāśīti akṛtrima jinacaityālayebhyo Janma-jarā-mṛtyu-vināśanāya jalāṁ nirvapāmīti svāhā /1/*

मलयागिर पावन, चंदन बावन, ताप बुझावन घसि लीनो ।
धरि कनक-कटोरी, द्वै-करजोरी, तुम पद-ओरी चित दीनो ॥
वसु कोटि सु छप्पन, लाख सताणव, सहस चार शत इक्यासी ।
जिन गेह अकृत्रिम, तिहुँ जग भीतर, पूजत पद ले अविनाशी ॥

ॐ ह्रीं श्री त्रैलोक्यसम्बन्ध्यष्टकोटि-षट्पञ्चाशल्लक्ष-समनवतिसहस्र-चतुः शतैकाशीति अकृत्रिम जिनचैत्यालयेभ्यो संसारताप-विनाशनाय चंदनं निर्वपामीति स्वाहा ।२।

Malayāgira pāvana, candana bāvana, tāpa bujhāvana ghasi līnō |
Dhari kanaka-kaṭōrī, dvai-karajōrī, tuma pada-ōrī cita dīnō ||
Vasu kōti su chappana, lākha satāṇava, sahasa cāra śata ikyāsī|
Jina gēha akṛtrima, tihiṁ jaga bhītara, pūjata pada lē avināśī ||

*Om hrīm śrī trailokyasambandhyāṣṭakōti-śaṭpañcāśallakṣa-saptanavatisahasra-catu:
Śataikāśīti akṛtrima jinacaityālayebhyo Sansāratāpa-vināśanāya candanam̄ nirvapāmīti svāhā /2/*

बहुभाँति अनोखे, तंदुल चोखे, लखि निरदोखे हम लीने ।
धरि कंचन-थाली, तुम गुणमाली, पुंज-विशाली कर दीने ॥
वसु कोटि सु छप्पन, लाख सताणव, सहस चार शत इक्यासी ।
जिन गेह अकृत्रिम, तिहुँ जग भीतर, पूजत पद ले अविनाशी ॥

ॐ ह्रीं श्री त्रैलोक्यसम्बन्ध्यष्टकोटि-षट्पञ्चाशल्लक्ष-समनवतिसहस्र-चतुः शतैकाशीति अकृत्रिम जिनचैत्यालयेभ्यो अक्षयपद-प्राप्तये अक्षतात् निर्वपामीति स्वाहा ।३।

Bahubhāṁti anōkhē, tandula cōkhē, lakhi niradōkhē hama līnē |
Dhari kañcana-thālī, tuma gunamālī, puñja-viśālī kara dīnē ||
Vasu kōti su chappana, lākha satāṇava, sahasa cāra śata ikyāsī|
Jina gēha akṛtrima, tihiṁ jaga bhītara, pūjata pada lē avināśī ||

*Om hrīm śrī trailokyasambandhyāṣṭakōti-śaṭpañcāśallakṣa-saptanavatisahasra-catu:
Śataikāśīti akṛtrima jinacaityālayebhyo akṣayapada-prāptayē akṣatān nirvapāmīti svāhā /3/*

शुभ पुष्प सुजाति, हैं बहुभाँति, अलि-लिपटाती लेय वरं ।
धरि कनक रकेबी, कर गहि लेवी, तुम पद जुग की भेट धरं ॥
वसु कोटि सु छप्पन, लाख सताणव, सहस चार शत इक्यासी ।
जिन गेह अकृत्रिम, तिहुँ जग भीतर, पूजत पद ले अविनाशी ॥

ॐ ह्रीं श्री त्रैलोक्यसम्बन्ध्यष्टकोटि-षट्पञ्चाशल्लक्ष-समनवतिसहस्र-चतुः शतैकाशीति अकृत्रिम जिनचैत्यालयेभ्यो कामबाण-विध्वंसनाय पुष्पं निर्वपामीति स्वाहा ।४।

Subha puṣpa sujāti, hain bahubhām̄tī, ali-lipaṭātī lēya varam |
 Dhari kanaka rakēbī, kara gahi lēvī, tuma padajuga kī bhēṭa dharam ||
 Vasu kōṭī su chappana, lākha satāṇava, sahasa cāra śata ikyāsī |
 Jina gēha akṛtrima, tiḥum̄ jaga bhītara, pūjata pada lē avināśī ||

*Om hrīm śrī trailokyasambandhyasṭakōṭi-śatpañcāśallakṣa-saptanavatisahasra-catu:
 Śataikāśīti akṛtrima jinacaitiyālayebhyo kāmabāṇa-vidhvansanāya puṣpa nirvapāmīti svāhā /4/*

खुरमा जु गिंदौड़ा, बरफी पेड़ा, घेर मोदक भरि थारी |
 विधिपूर्वक कीने, घृतमय भीने, खांड में लीने सुखकारी ||
 वसु कोटि सु छप्पन, लाख सताणव, सहस चार शत इक्यासी |
 जिन गेह अकृत्रिम, तिहुँ जग भीतर, पूजत पद ले अविनाशी ||

ॐ ह्रीं श्री त्रैलोक्यसम्बन्ध्यष्टकोटि-पट्टपंचाशल्क-सप्तनवति सहस्र-चतुः शतैकाशीति अकृत्रिम जिनचैत्यालयेभ्यो
 क्षुधारोग-विनाशनाय नैवेद्यं निर्वपामीति स्वाहा ।५।

Khuramā ju gindaurā, baraphī pēṛā, ghēvara mōdaka bhari thānī |
 Vidhipūrvaka kīnē, ghṛtamaya bhīnē, khāṇḍa mēṁ līnē sukhakānī ||
 Vasu kōṭī su chappana, lākha satāṇava, sahasa cāra śata ikyāsī |
 Jina gēha akṛtrima, tiḥum̄ jaga bhītara, pūjata pada lē avināśī ||

*Om hrīm śrī trailokyasambandhyasṭakōṭi-śatpañcāśallakṣa-saptanavatisahasra-catu:
 Śataikāśīti akṛtrima jinacaitiyālayebhyo kṣudhārōga-vināśanāya naivēdyam̄ nirvapāmīti svāhā /5/*

मिथ्यात-महातम, छायरहयो हम, निज भव परिणति नहिं सूझे |
 इह कारण पा के, दीप सजा के, थाल धरा के हम पूजें॥
 वसु कोटि सु छप्पन, लाख सताणव, सहस चार शत इक्यासी |
 जिन गेह अकृत्रिम, तिहुँ जग भीतर, पूजत पद ले अविनाशी ||

ॐ ह्रीं श्री त्रैलोक्यसम्बन्ध्यष्टकोटि-पट्टपंचाशल्क-सप्तनवति सहस्र-चतुः शतैकाशीति अकृत्रिम जिनचैत्यालयेभ्यो
 मोहान्धकार -विनाशनाय दीपं निर्वपामीति स्वाहा ।६।

Mithyāta-mahātama, chāya rāhyō hama, nija bhava pariṇati nahim sūjhē |
 Iha kāraṇa pā kē, dīpa sajā kē, thāla dharā kē hama pūjaiṁ ||
 Vasu kōṭī su chappana, lākha satāṇava, sahasa cāra śata ikyāsī |
 Jina gēha akṛtrima, tiḥum̄ jaga bhītara, pūjata pada lē avināśī ||

*Om hrīm śrī trailokyasambandhyasṭakōṭi-śatpañcāśallakṣa-saptanavatisahasra-catu:
 Śataikāśīti akṛtrima jinacaitiyālayebhyo mōhāndhakāra -vināśanāya dīpam̄ nirvapāmīti svāhā /6/*

दशगंध कुटा के, धूप बनाके, निजकर लेके धरि ज्वाला ।
 तसु धूम उड़ाई, दश दशि छाई, बहु महकाई अति आला ॥
 वसु कोटि सु छप्पन, लाख सताणव, सहस चार शत इक्यासी ।
 जिन गेह अकृत्रिम, तिहुँ जग भीतर, पूजत पद ले अविनाशी ॥

ॐ ह्रीं श्री त्रैलोक्यसम्बन्ध्यष्टकोटि-पट्पंचाशल्लक्ष-सप्तनवतिसहस्र-चतुः शतैकाशीति अकृत्रिम जिनचैत्यालयेभ्यो
 अष्टकर्म-दहनाय धूपं निर्विपामीति स्वाहा ।७।

Daśagandha kuṭā kē, dhūpa banākē, nijakara lēkē dharijvālā ।
Tasu dhūma uṛār'i, daśa daśi chār'i, bahu mahakār'i ati ālā ॥
Vasu kōti su chappana, lākha satāṇava, sahasa cāra śata ikyāsī ।
Jina gēha akṛtrima, tihum̄ jaga bhītara, pūjata pada lē avināśī ॥

*Om hrīṁ śrī trailokyasambandhyāṣṭakōti-śaṭpañcāśallakṣa-saptanavatisahasra-catu:
 Śataikāśīti akṛtrima jinacaitiyālayebhyo aṣṭakarma-dahanāya dhūpaṁ nirvapāmīti svāhā ।७।*

बादाम छुहरे, श्रीफल धारे, पिस्ता प्यारे द्राख वरं ।
 इन आदि अनोखे, लखि निरदोखे, थाल संजोखे भेंट धरं ॥
 वसु कोटि सु छप्पन, लाख सताणव, सहस चार शत इक्यासी ।
 जिन गेह अकृत्रिम, तिहुँ जग भीतर, पूजत पद ले अविनाशी ॥

ॐ ह्रीं श्री त्रैलोक्यसम्बन्ध्यष्टकोटि-पट्पंचाशल्लक्ष-सप्तनवतिसहस्र-चतुः शतैकाशीति अकृत्रिम जिनचैत्यालयेभ्यो
 मोक्षफल-प्राप्तये फलं निर्विपामीति स्वाहा ।८।

Bādāma chuhārē, śrīphala dhārē, pistā pyārē drākha varam ।
Ina ādi anōkhē, lakhi niradōkhē, thāla sañjōkhē bhēṇṭa dharam ॥
Vasu kōti su chappana, lākha satāṇava, sahasa cāra śata ikyāsī ।
Jina gēha akṛtrima, tihum̄ jaga bhītara, pūjata pada lē avināśī ॥

*Om hrīṁ śrī trailokyasambandhyāṣṭakōti-śaṭpañcāśallakṣa-saptanavatisahasra-catu:
 Śataikāśīti akṛtrima jinacaitiyālayebhyo mōkṣaphala-prāptayē phalam̄ nirvapāmīti svāhā ।८।*

जल चंदन तंदुल, कुसुम रु नेवज, दीप धूप फल थाल रचू ।
 जयघोष कराऊँ, बीन बजाऊँ, अर्घ्य चढ़ाऊँ खूब नचू ॥
 वसु कोटि सु छप्पन, लाख सताणव, सहस चार शत इक्यासी ।
 जिन गेह अकृत्रिम, तिहुँ जग भीतर, पूजत पद ले अविनाशी ॥

ॐ ह्रीं श्री त्रैलोक्यसम्बन्ध्यष्टकोटि-पट्पंचाशल्लक्ष-सप्तनवतिसहस्र-चतुः शतैकाशीति अकृत्रिम जिनचैत्यालयेभ्यो
 अनर्घ्यपद-प्राप्तये अर्घ्य निर्विपामीति स्वाहा ।९।

Jala candana tandula, kusuma ru nēvaja, dīpa dhūpa phala thāla racauram ।
Jayaghōṣa karā'um̄, bīna bajā'um̄, arghya cāṛhā'um̄ khūba nacaurm̄ ॥
Vasu kōti su chappana, lākha satāṇava, sahasa cāra śata ikyāsī ।
Jina gēha akṛtrima, tihum̄ jaga bhītara, pūjata pada lē avināśī ॥

*Om hrīm śrī trailokyasambandhyāṣṭakōti-śatpañcāśallakṣa-saptanavatisahasra-catu:
Śataikāśīti akṛtrima jinacaityālayebhyo anarghyapada-prāptayē arghyam nirvapāmīti svāhā /9|*

अथ प्रत्येक अर्ध्यः (चौपाई)

Atha pratyēka arghya: (Caupāi)

**अधोलोक जिन-आगम साख, सात कोडि अरु बहतर लाख |
श्रीजिन-भवन महाछवि देइ, ते सब पूजूं वसु-विधि लेइ ||**

ॐ ह्रीं श्री अधोलोकसम्बन्धि -सप्तकोटि-द्विसप्तति-लक्षाकृत्रिम-श्रीजिन- चैत्यालयेभ्यः अर्ध्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

**Adhōlōka jina-āgama sākha, sāta kōṛi aru bahatara lākha |
Śrījina-bhavana mahāchavi dē'i, tē saba pūjuṁ vasu-vidhi lē'i ||**

Om hrīm śrī adholōkasambandhi -saptakōti-dvisaptati-lakṣākṛtrima-śrījina- caityālayēbhya: Arghyam nirvapāmīti svāhā /

(अडिल्ल छन्द)

(Adilla chanda)

**मध्यलोक जिन मंदिर ठाठ, साढ़े चार शतक अरु आठ |
ते सब पूजूं अर्घ चढ़ाय, मन-वच-तन त्रय-जोग मिलाय ||**

ॐ ह्रीं मध्यलोकसम्बन्धि-चतुशताष्टपञ्चाशत-श्रीजिनचैत्यालयेभ्यः अर्ध्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

**Madhyalōka jina mandira ṭhāṭha, sāṛhai cāra śataka aru āṭha |
Tē saba pūjuṁ argha caṛhāya, mana-vaca-tana traya-jōga milāya ||**

Om hrīm madhyalōkasambandhi-catuśatāṣṭapañcāśata-śrījinacaityālayēbhya: Arghyam nirvapāmīti svāhā /

**ऊर्ध्वलोक के मँहिं भवन जिन जानिये |
लाख चौरासी सहस्र सत्याणव मानिये ||
ता पे धरि तेईस जजूं सिर नाय के |
कंचन-थाल मँझार जलादिक लाय के ||**

ॐ ह्रीं श्री ऊर्ध्वलोकसम्बन्धि-चतुरशीतिलक्ष-सप्तनवतिसहस्र-त्रयविंशति श्रीजिनचैत्यालयेभ्यः अर्ध्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

**Ūrv-lōka kē māṁhirīn bhavana jina jāniyē |
Lākha caurāsī sahasa satyāṇava māniyē ||
Tā pe dhari tē'isa jajurīn sira nāya kē |
Kañcana-thāla māṁjhāra jalādika lāya kē ||**

*Om hrīm śrī ūrvlōkasambandhi-caturaśitilakṣa-saptanavatisahasra-trāyavinsati
śrījinacaityālayēbhya: arghyam nirvapāmīti svāhā /*

(गीता छन्द)

(Gītā chanda)

वसु कोटि छप्पन लाख ऊपर, सहस्र सत्याणव मानिये ।

शत-च्यार पे गिन ले इक्यासी, भवन-जिनवर जानिये ॥

तिहुँलोक-भीतर सासते, सुर-असुर-नर पूजा करें ।

तिन भवन को हम अर्घ लेके, पूजिहें जग-दुःख हरें ॥

ॐ ह्रीं श्री त्रैलोक्यसम्बन्धि- अष्टकोटि-षट्पंचाशल्लक्ष-सप्तनवतिसहस्र- चतुःशतैकाशीति अकृत्रिम श्रीजिनचैत्यालयेभ्यः अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

Vasu kōti chappana lākha ūpara, sahasra satyāṇava māniyē ।

Śata-cyāra pai gina lē ikyāsī, bhavana-jinavara jāniyē ॥

Tihum̄lōka-bhītara sāsatē, sura-asura-nara pūjā karēṁ ।

Tina bhavana kō hama argha lēkē, pūjihaiṁ jaga-du:Kha harēṁ ॥

*Om hrīṁ śrī trailokyasambandhi- aṣṭakōti-ṣaṭpañcāśallakṣa-saptanavatisahasra- catu:Śataikāśīti
akṛtrima śrījinacaityālayēbhya: arghyam nirvapāmīti svāhā /*

जयमाला (दोहा)

Jayamālā (dōhā)

अब वरणूँ जयमालिका, सुनो भव्य चित लाय ।

जिनमंदिर तिहुँलोक के, देहुँ सकल दरशाय ॥१॥

Aba varanūm̄ jayamālikā, sunō bhavya cita lāya ।

Jinamandira tihum̄lōka kē, dēhum̄ sakala daraśāya ||1||

(पद्धरि छन्द)

(Pad'dhari chanda)

जय अमल अनादि अनंत जान, अनिर्मित जु अकृत्रिम अचलमान ।

जय अजय अखंड अरूपधार, षट्द्रव्य नहीं दीसे लगार ॥२॥

Jaya amala anādi ananta jāna, anirmita ju akṛtrima acalamāna ।

Jaya ajaya akhanḍa arūpadhāra, ṣaṭdravya nahīṁ dīse lagāra ||2||

जय निराकार अविकार होय, राजत अनंत परदेश सोय ।

जय शुद्ध-सुगुण अवगाहपाय, दशदिशा-महिं इहविध लखाय ॥३॥

Jaya nirākāra avikāra hōya, rājata ananta paradēśa sōya ।

Jaya śud'dha-suguṇa avagāhapāya, daśadiśā-mahim̄ ihavidha lakhāya ||3||

यह भेद अलोकाकाश जान, तामध्य लोक-नभ तीन मान |
स्वयमेव बन्यो अविचल अनंत, अविनाशि अनादि जु कहत संत ||४||

Yaha bhēda alōkākāśa jāna, tāmadhya lōka-nabha tīna māna |
Svayamēva ban'yo avicala ananta, avināśi anādiju kahata santa ||4||

पुरुषाकार ठड़ो निहार, कटि-हाथ धारि द्वैपग पसार |
दच्छिन उत्तरदिशि सर्व ठौर, राजू जु सात भाख्यो निचोर ||५||

Puruṣākāra ṭhārō nihāra, kaṭi-hātha dhāri dvaipaga pasāra |
Dacchina uttaradiśi sarva ṭhaura, rājū ju sāta bhākhyō nicōra ||5||

जय पूर्व अपरिदिशि घाटबाधि, सुन कथन कहूँ ताको जु साधि |
लखि श्वभतले राजू जु सात, मधिलोक एक राजू रहात ||६||

Jaya pūrva aparidiśi ghāṭabādhī, suna kathana kahūm̄ tākō ju sādhī |
Lakhi śvabhratalē rājū ju sāta, madhilōka ēka rājū rahāta ||6||

फिर ब्रह्मसुरग राजू जु पाँच, भू सिद्ध एक राजू जु साँच |
दश चार ऊँच राजू गिनाय, षट्द्रव्य लये चतुकोण पाय ||७||

Phira brahmasuraga rājū ju pāṁca, bhū sid'dha ēka rājū ju sāṁca |
Daśa cāra ūṁca rājū gināya, ṣaṭdravya layē catukōṇa pāya ||7||

तसु वातवलय लपटाय तीन, इह निराधार लखियो प्रवीन |
त्रसनाडी ता-मधि जान खास, चतुकोन एक राजू जु व्यास ||८||

Tasu vātavalaya lapaṭāya tīna, iha nirādhāra lakhiyō pravīna |
Trasanāḍī tā-madhi jāna khāsa, catukōna ēka rājū ju vyāsa ||8||

राजू उत्तंग चौदह प्रमान, लखि स्वयंसिद्ध रचना महान् |
ता-मध्य जीव त्रस आदि देव, निजथान पाय तिष्ठे भलेय ||९||

Rājū uttaṅga caudaha pramāna, lakhi svayansid'dha racanā mahān |
Tā-madhyā jīva trasa ādi dēva, nijathāna pāya tiṣṭhē bhalēya ||9||

लखि अधोभाग में श्वभथान, गिन सात कहे आगम प्रमान |
षट्थान-माँहि नारकि बसेय, इक श्वभ-भाग फिर तीन भेय ||१०||

Lakhi adhōbhāga mēṁ śvabhrathāna, gina sāta kahē āgama pramāna |
Ṣaṭṭhāna-māṁhiṁ nāraki basēya, ika śvabhra-bhāga phira tīna bhēya ||10||

तसु अधोभाग नारकि रहाय, पुनि उद्धर्वभाग द्वय थानपाय |
बस रहे भवन व्यंतर जु देव, पुर हर्म्य छजे रचना स्वमेव ||११||

Tasu adhōbhāga nāraki rahāya, puni ūdhrvabhāga dvaya thānapāya |
Basa rahē bhavana vyantara ju dēva, pura harmya chajai racanā svamēva ||11||

तिह थान गेह जिनराज-भाख, गिन सातकोटि बहतर जु लाख |
ते भवन नमू मन वचन काय, गति श्वभ हरनहारे लखाय ||१२||

Tiha thāna gēha jinarāja-bhākha, gina sātakōti bahattara ju lākha |
Tē bhavana namum mana vacana kāya, gati śvabha haranahārē lakhāya ||12||

पुनि मध्यलोक गोलाअकार, लखि द्वीप-उदधि-रचना विचार |
गिन असंख्यात भाखे जु संत, लखि संभुरमन सबके जु अंत ||१३||

Puni madhyalōka gōlā'akāra, lakhi dvīpa-udadhi-racanā vicāra |
Gina asaṅkhyāta bhākhē ju santa, lakhi sambhuramana sabakē ju anta ||13||

इक राजु व्यास में सर्व जान, मधिलोक तनों इह कथन मान |
सब मध्य द्वीप जम्बू गिनेय, त्रयदशम रुचिकवर नाम लेय ||१४||

Ika rāju vyāsa mēṁ sarva jāna, madhilōka tanōṁ iha kathana māna |
Saba madhya dvīpa jambū ginēya, trayadaśama rucikavara nāma lēya ||14||

इन तेरह में जिनधाम जान, शत-चार अठावन हैं प्रमान |
खग देव असुर नर आय आय, पद-पूज जाय सिरनाय-जाय ||१५||

Ina tēraha mēṁ jinadhāma jāna, śata-cāra aṭhāvana haiṁ pramāna |
Khaga dēva asura nara āya āya, pada-pūja jāya siranāya-jāya ||15||

जय ऊर्ध्वलोक सुर कल्पवास, तिह-थान छजे जिनभवन खास ।
जय लाख चुरासी पे लखेय, जय सहस्र सत्याणव और ठेय ॥१६॥

Jaya ūdhralōka sura kalpavāsa, tiha-thāna chajē jinabhavana khāsa |
Jaya lākha curāsī pe lakhēya, jaya sahasra satyāṇava aura ṭhēya ||16||

जय बीस तीन पुनि जोड़ देय, जिनभवन अकृत्रिम जान लेय ।
प्रतिभवन एक रचना कहाय, जिनबिंब एकशत आठ पाय ॥१७॥

Jaya bīsa tīna puni jōṛa dēya, jinabhavana akṛtrima jāna lēya |
Pratibhavana ēka racanā kahāya, jinabimba ēkaśata āṭha pāya ||17||

शतपंच-धनुष उन्नत लसाय, पद्मासन-युत वर ध्यान लाय ।
सिर तीन-छत्र शोभित विशाल, त्रय-पादपीठ मणिजटित लाल ॥१८॥

Śatapañca-dhanuṣa unnata lasāya, padmāsana-yuta vara dhyāna lāya |
Sira tīna-chatra śōbhita viśāla, traya-pādapīṭha maṇijaṭita lāla ||18||

भामंडल की छवि कौन गाय, पुनि चँवर दुरत चौसठि लखाय ।
जय दुंदुभि-रव अद्भुत सुनाय, जय पुष्पवृष्टि गंधोदकाय ॥१९॥

Bhāmaṇḍala kī chavi kauna gāya, puni caṁvara ḍhurata causaṭhi lakhāya |
Jaya dundubhi-rava adbhuta sunāya, jaya puṣpavṛṣṭi gandhōdakāya ||19||

जय तरु-अशोक शोभा भलेय, मंगल विभूति राजत अमेय ।
घट-तूप छजे मणिमाल पाय, घट-धूप धूम दिग-सर्व छाय ॥२०॥

Jaya taru-aśōka śōbhā bhalēya, maṅgala vibhūti rājata amēya |
Ghaṭa-tūpa chajē maṇimāla pāya, ghaṭa-dhūpa dhūma diga-sarva chāya ||20||

जय केतु पंक्ति सोहें महान्, गंधर्व देव गुन करत गान ।

सुर जनम लेत लखि अवधि पाय, तिसथान प्रथम पूजन कराय ॥२१॥

Jaya kētu pañkti sōhēṁ mahān, gandharva dēva guna karata gāna |
Sura janama lēta lakhi avadhi pāya, tisathāna prathama pūjana karāya ||21||

जिनगेह-तनो वरनन अपार, हम तुच्छ बुद्धि किम लहें पार ।
जय देव जिनेसुर जगत्भूप, नमि 'नेम' मँगें निज देहरूप ॥२२॥

Jinagēha-tanō varanana apāra, hama tuccha bud'dhi kima lahēm pāra |
Jaya dēva jinēsura jagatbhūpa, nami 'nēma' maṁgēm nija dēharūpa ||22||

तीनलोक में सासते, श्री जिनभवन विचार ।
मन-वच-तन करि शुद्धता, पूजूं अरघ उतार ॥

ॐ ह्रीं श्री त्रैलोक्यसम्बन्ध्यष्टकोटि-षट्पंचाशल्लक्ष-सप्तनवतिसहस्रतुः शतैकाशीति अकृत्रिम जिनचैत्यालयेभ्यः जयमाला-पूणार्थ्यं निर्वपामीति स्वाहा।

Tīnalōka mēm sāsatē, śrījinabhavana vicāra |

Mana-vaca-tana kari śud'dhatā, pūjum araghā utāra ||

*Om hrīm śrī trailokyasambandhyasṭakōṭi-ṣaṭpañcāśallakṣa-saptanavatisahasracatu: Śataikāśīti
akṛtrima jinacaitiyālayēbhyā: Jayamālā-pūrṇārghyāṁ nirvapāmīti svāhā /*

तिहुँजग भीतर श्री जिनमंदिर, बने अकृत्रिम अति सुखदाय ।
नर सुर खग करि वंदनीक जे, तिनको भविजन पाठ कराय ॥

Tihum̄jaga bhītara śrī jinamandira, banē akṛtrima ati sukhadāya |
Nara sura khaga kari vandanīka jē, tinakō bhavijana pāṭha karāya ||

धन-धान्यादिक संपति तिनके, पुत्र-पौत्र-सुख होत भलाय ।
चक्रीसुर खग इन्द्र होयके, करम-नाश शिवपुर-सुख थाय ॥

Dhana-dhān'yādika sampati tinakē, putra-pautra-sukha hōta bhalāya |
Cakrīsura khaga īndra hōyakē, karama-nāśa śivapura-sukha thāya ||

// इत्याशीर्वादः पुष्पांजलिं क्षिपेत् //
// Ityāśīrvāda: Puṣpāñjalim kṣipēt //

* * * A * * *